



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24—नवम्बर 30, 2012 (अग्रहायण 3, 1934)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24—NOVEMBER 30, 2012 (AGRAHAYANA 3, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

#### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2012

सं. ए-11013/17/2011-प्रशा.-3--राष्ट्रपति, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. अश्वनी कुमार) द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 को अपना पद छोड़ देने के परिणामस्वरूप, उनके निजी स्टॉफ में सह-सत्रावसानी आधार पर सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त श्री परदीप बजाज की सेवाएं दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 के अपराह्न से सहर्ष समाप्त करते हैं और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में प्रत्यावर्तित करते हैं।

2. उन्हें 30 दिनों की अवधि अर्थात् दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के अपराह्न तक शेष कार्यों के निपटान के लिए अनुमति दी जाती है। तदोपरान्त, उक्त निपटान अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे अपने मूल कार्यालय अर्थात् सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु योजना आयोग से कार्यमुक्त हो जाएंगे।

सुभाष चन्दर, अवर सचिव

सं. ए-11013/17/2011-प्रशा.-3--राष्ट्रपति, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. अश्वनी कुमार) द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 को

अपना पद छोड़ देने के परिणामस्वरूप, उनके निजी स्टॉफ में सह-सत्रावसानी आधार पर प्रथम वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्त श्री सुदर्शन कुमार की सेवाएं दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 के अपराह्न से सहर्ष समाप्त करते हैं और जल संसाधन मंत्रालय में प्रत्यावर्तित करते हैं।

2. उन्हें 15 दिनों की अवधि अर्थात् दिनांक 11 नवम्बर, 2012 के अपराह्न तक शेष कार्यों के निपटान के लिए अनुमति दी जाती है। तदोपरान्त, उक्त निपटान अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे अपने मूल कार्यालय अर्थात् जल संसाधन मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु योजना आयोग से कार्यमुक्त हो जाएंगे।

सुभाष चन्दर, अवर सचिव

सं. ए-11013/17/2011-प्रशा. 3--राष्ट्रपति, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. अश्वनी कुमार) द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 को अपना पद छोड़ देने के परिणामस्वरूप, उनके निजी स्टॉफ में सह-सत्रावसानी आधार पर अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर नियुक्त श्रीमती निर्मल कोहली (बाहरी व्यक्ति) की सेवाएं दिनांक 28 अक्टूबर, 2012 के अपराह्न से सहर्ष समाप्त करते हैं।

2. उन्हें 15 दिनों की अवधि अर्थात् दिनांक 11 नवम्बर, 2012 के अपराह्न तक शेष कार्यों के निपटान के लिए अनुमति स्वीकृत की जाती है।

सुभाष चन्दर, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

सं. ए-12025/06/2010-प्रशा.-I (वि. का.)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर श्री नीरज कुमार, अधिवक्ता को दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) में रु. 6,600/- ग्रेड वेतन सहित सहायक विधि सलाहकार के पद (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-IV) पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री नीरज कुमार की सहायक विधि सलाहकार के पद पर यह नियुक्ति अनंतिम है और माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में लंबित ओ. ए. सं. 1741/2012 और 1723/2012 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

गणेशदत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय  
अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 नवम्बर 2012

सं. ए-38011/2/2012-अ.रा.प. (प्रशा.)--अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर श्री मेलविन मार्टिन, उप सचिव, अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय दिनांक 31 अक्टूबर 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

लाजपत राय गुप्ता, उप सचिव

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2012

सं. 12/23/2011-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री रतन कुमार दास को सीएसएस के अवर सचिव पद पर दिनांक 30.10.2012 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर 31.05.2013 की अवधि तक या जब तक पद को नियमित आधार पर भरा नहीं जाता या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में नियुक्त करते हैं।

अशोलि चलाई, निदेशक (स्था.)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2012

सं. 14012/18/2012-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के 2008 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री राधाकृष्णन बी. को 01.09.2012 से स्थाई करते हैं।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14012/28/2012-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने दर्शाई गई तिथियों से स्थाई करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
सर्वश्री			
1.	देवी प्रसाद कारानाम	2008	01.09.2010
2.	मुक्ता आर्य	2008	01.09.2010
3.	सौरव पहाड़ी	2008	09.02.2011

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14012/11/2012-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथि (तिथियों) से स्थायी करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
सर्वश्री			
1.	चन्द्र शेखर	2008	01.09.2010
2.	राजीव रतन	2008	01.09.2010

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्टूबर, 2012

सं. 97 : (फा. सं. ए-19011/22/2012-प्रशा. 1)--राष्ट्रपति, श्री जी. जी. शुक्ला, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर-76026) (सेवानिवृत्त) को आयकर लोकपाल निर्देशिका, 2010 में निहित नियम व शर्तों के अधीन दिनांक 08.10.2012 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए, या उनके 63 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, एच ए जी + 75,500--80,000/- रुपये के वेतनमान में आयकर लोकपाल के रूप में कोच्चि में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 18 अक्टूबर 2012

सं. 98 : (फा. सं. ए-19013/15/2012-प्रशा. 1)---राष्ट्रपति, श्री एस. सी. गंगर (भारतीय राजस्व सेवा : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क) को दिनांक 04.09.2012 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 19 अक्टूबर 2012

सं. 99 : (फा. सं. ए-19012/18/2012-प्रशा. 1)---राष्ट्रपति, सुश्री आरती ए. श्रीनिवास, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 92) को दिनांक 16.10.2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 25 अक्टूबर 2012

सं. 100 : (फा. सं. ए-19011/25/2012-प्रशा. 1)---राष्ट्रपति, श्री एस. एम. टट्टा, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 89) को दिनांक 18.09.2012 (अपराह्न) से और अगले आदेशों तक अथवा इनमें से जो भी पहले हो, 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन सहित, वेतन बैंड-4 (37,400--67,000/- रुपये) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) में आयुक्त (सेवाकर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 102 : (फा. सं. ए-19011/26/2012-प्रशा. 1)---राष्ट्रपति, श्रीमती लिपिका मजूमदार राय चौधरी, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 77) को दिनांक 22.10.2012 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक अथवा उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत सरकार के विशेष सचिव के स्तर के साथ 80,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड) के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 नवम्बर 2012

सं. 105 : (फा. सं. ए-38012/4/2012-प्रशा. 1)---राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी

श्री ए. के. चतुर्वेदी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 106 : (फा. सं. ए-38012/5/2012-प्रशा. 1)---राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री लाजपत राय अग्रवाल अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

सं. 24/2012 (फा. सं. ए-19013/50/2012-प्रशासन-1क)---व्यय विभाग के दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 के संवर्ग प्रशासन अनुभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-12026/8/2010-सीएस के और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) के अनुसरण में और वर्ष 2010 की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्री बलवान सिंह, नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, जो इससे पहले गृह मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (विलियत) के रूप में नियमित आधार पर दिनांक 27.09.2012 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 2012

सं. ए-19011/328/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, सुश्री अन्ना राय, आईईएस (1992) को 01 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

विजय मल्होत्रा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2012

सं. ए-12026/2/2010-एडी. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री हेम राज आनंद को

15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपये के (ग्रेड वेतन) में 31 अक्टूबर, 2012 के पूर्वाह्न से दिनांक 31.05.2013 तक अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं। श्री हेम राज आनंद की तदर्थ पदोन्नति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश संख्या 5/9/2012-सीएस-I (यू) में यथा उल्लिखित शर्तों के अनुसार संचालित होगी।

बिप्लब कुमार रॉय, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2012

सं. 19/2012 (.) फा. सं. ए-46011/10/2009-स्था (.)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 18 सितम्बर, 2012 के पत्र फा. सं. 3/23(4)/2012-एडीटी-2 द्वारा सिफारिश के आधार पर श्री एस. बालाराजू, निदेशक (प्रवर्तन) को वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में पदोन्नति आधार पर संयुक्त वस्त्र आयुक्त, (समूह क राजपत्रित) के पद पर 37,400--67,000/- रुपये के पे बैंड + 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन में दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 (अपराह्न) से नियुक्त करते हैं। वह 15 अक्टूबर, 2012 (अपराह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता है।

सुमिंदर कौर, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2012

सं. ए-12011/11/2005-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 अक्टूबर, 2012 के आदेश संख्या 9/52/2012-ईओ (एस.एम.-I) के अनुसरण में श्री अफजल अमानुल्लाह, भा. प्रा. सेवा (बी.एच. 79) को 06 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 67,000--79,000/- रुपये के वेतनमान में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

दिनांक 8 नवम्बर 2012

सं. ए-12011/4/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के आदेश संख्या 5/9/2012-सी. एस.-I (यू) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को उनके नामों के आगे उल्लिखित तारीखों से 31.05.2012 की अवधि तक अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान

(पी. बी.-3) और 6,600/- रुपये ग्रेड वेतन में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव ग्रेड-I के रूप में नियुक्त करते हैं :-

सीएसएल	नाम	संवर्ग जहां से कार्यभार मुक्त हुए हैं	नियुक्ति की तारीख
7252 सं.	श्री राजेश बड़गूजर	राजस्व	01.11.2012 (पूर्वाह्न)
7995	श्री टी. थियान खान मुआन	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	02.11.2012 (पूर्वाह्न)

2. यह तदर्थ नियुक्ति ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के लिए वरिष्ठता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

3. इसके अतिरिक्त, यह नियुक्ति, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रधान पीठ) नई दिल्ली में लम्बित ओ. ए. संख्या 1083/2007 में दिए गए अंतिम निर्णय और इससे संबंधित अन्य मामलों में, ओ.ए. संख्या 1083/2007 के अतिरिक्त, किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगी।

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

दिनांक 9 नवम्बर 2012

सं. ए-12011/5/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री राजेश्वर कुमार, प्रोफेसर को भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान (पी. बी.-3) और 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में दिनांक 01 नवम्बर, 2012 पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

सं. ए-12023/01/2011-स्थापना--राष्ट्रपति, डॉ. रंजीत बेयरवा, वैज्ञानिक 'सी' डीएसआईआर को सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उनके चयन के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में वैज्ञानिक 'सी' के पद पर ग्रेड पे रुपये 6,600/- सहित पे बैंड-3 में रुपये 15,600--39,100/- में दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

श्रीनिवास प्रधान, अवर सचिव

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

सं. ए-19011/15/2007-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/9/2012-सी.एस.-I (यू) दिनांक 30 अक्टूबर,

2012 के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री वी. पी. गुलाटी, सीएसएस अनुभाग अधिकारी को इस विभाग में तत्काल प्रभाव से, उनकी सेवा निवृत्ति तक अर्थात् 31 अक्टूबर, 2012 तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 31 अक्टूबर 2012

सं. ए-38011/10/2012-स्थापना--जैव प्रौद्योगिकी विभाग में अवर सचिव के पद पर नियुक्त श्री वीरेन्द्र पाल गुलाटी 31 अक्टूबर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

सं. ए-12018/1/2007-डीएफक्यूसी (भाग-II)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत् अनुमोदित वर्ष 2012-13 के पैल हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित सहायक औषध नियंत्रकों (भारत) को 18 अक्टूबर, 2012 से आगामी आदेशों तक बताए गए क्रम में संशोधित वेतनमान (पीबी-3 (15,600--39,100/- रुपये) + ग्रेड वेतन 7,600/- रु., (समूह 'क' राजपत्रित-अननुसचिवीय) तथा सामान्य अनुज्ञेय भर्तों में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप औषध नियंत्रक (भारत) के पद पर नियमित अस्थाई हैसियत में प्रोन्नत करते हैं --

- (i) डॉ. देबब्रत राय,
- (ii) श्री जी. नागेश्वर राव,
- (iii) श्री एस. मुखोपाध्याय

2. उपर्युक्त अधिकारियों की प्रोन्नति एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के अधीन है। सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2008 तथा इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रोन्नति पर ये अधिकारी प्रोन्नति की तारीख अथवा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से संशोधित वेतनमान में उनके वेतन के नियतन के विकल्प के हकदार हैं। ऐसे विकल्प का प्रयोग प्रोन्नति की तारीख से एक माह के भीतर अवश्य ही किया जाना चाहिए।

3. डॉ. देबब्रत राय के मामले में उपर्युक्त प्रोन्नति संशोधित ए.सी. पी. स्कीम के अन्तर्गत पहले से मंजूर किए गए उनके वित्तीय उन्नयन को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगी और वे जैसा अब से पहले है, वही वेतन व भत्ते ड्रा करते रहेंगे।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

सं. 21-1/2010-सीए-III--विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-ख, राजपत्रित अलिपिकवर्गीय) की अनुशंसाओं के आधार पर निम्नलिखित सांख्यिकी अन्वेषकों तथा वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को 4,600/- रु.

ग्रेड पे के साथ 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान पर फसल विकास निदेशालय के संवर्ग में सहायक निदेशक के पद पर उनके नाम के समक्ष उल्लिखित दिनांक से अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जाता है जो 19.10.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक प्रभावी हैं:--

क्रम सं.	नाम	पद पर पदोन्नति	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	तैनाती का स्थान
1.	डॉ. महेश कुमार, एसटीए	सहायक निदेशक	20.10.2011	गेहूँ विकास निदेशालय, गाजियाबाद
2.	डॉ. अरूण कुमार, शिवहरे, एसआई	सहायक निदेशक	19.10.2011	दलहन विकास निदेशालय, भोपाल
3.	डॉ. सुमित मिश्रा, एसटीए	सहायक निदेशक	19.10.2011	गन्ना विकास निदेशालय, लखनऊ
4.	डॉ. सुभाष चन्द्र, एसटीए	सहायक निदेशक	21.12.2011	कदन्न विकास निदेशालय, जयपुर
5.	श्रीमती संध्या रानी गोर्ठी, एसआई	सहायक निदेशक	16.08.2012	तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद

एम. के. सहाय, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 नवम्बर 2012

सं. ए-19011/30/2012-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/9/2012-सी.एस. 1 (यू) दिनांक 30.10.2012 के तहत श्री टी. टोप्पो को 01 नवम्बर, 2012 पूर्वाह्न से पीबी-3, 15,600--39,100/- रु. ग्रेड पे 6,600 रु. के वेतनमान में पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. बैनर्जी, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

सं. 5-3/2011-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 अगस्त, 2012 के का.ज्ञा. सं. 06/11/2012 सी.एस.एस.-I के अनुसरण में राष्ट्रपति इस मंत्रालय में कार्यरत निम्नलिखित नियमित सी.सी.एस. सहायकों को पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से सी.सी.एस. अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	सी.एस. सं.	कार्य ग्रहण की तारीख
1.	श्रीमती गिरिजा सुरेन्द्रन	295	01.10.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री राम प्रसाद शर्मा	463	01.10.2012 (पूर्वाह्न)

नवीन यादव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

सं. 4-21/1987-प्रशासन--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में श्री देवव्रत मजूमदार, अनुभाग अधिकारी दिनांक 31.10.2012 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

जय किशोर, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

सं. ए-19011/9/2012-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कैबिनेट की नियुक्तियों की समिति का सचिवालय) के दिनांक 21 सितम्बर, 2012 के आदेश सं. 4/2/2012-ई.ओ. (एमएम-1) द्वारा संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप श्री राकेश रंजन, आईएस (एमटी : 92) ने संस्कृति मंत्रालय में 15 अक्टूबर, 2012 की पूर्वाह्न से संयुक्त सचिव का कार्यभार संभाल लिया है।

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 नवम्बर 2012

सं. 2 (10)/2012-का. I --राष्ट्रपति जी ने डॉ. दिनेश चंद्र चमोला को इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दिनांक 01.11.2012 के पूर्वाह्न से 7,600/- रु. प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3, में आरम्भतः एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति (अल्प-कालीन संविदा) के आधार पर संयुक्त निदेशक (हिन्दी) नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 4(578)/94-कार्मिक-I--राष्ट्रपति ने इस विभाग में 8,900/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रुपये के वेतन बैंड-4 में श्रीमती हर्षप्रभा अग्रवाल, (कर्मचारी कोड : 225) का दिनांक 07.09.2012 के पूर्वाह्न से वैज्ञानिक 'एफ' के पद से तकनीकी त्यागपत्र मंजूर किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त सचिव

दिनांक 5 नवम्बर 2012

सं. 3 (5)/2011-का. I --राष्ट्रपति जी ने इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'एफ' को पदोन्नत होने पर दिनांक 02.11.2012 (पूर्वाह्न) से 10,000/- रु. प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 में वैज्ञानिक 'जी' नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 की रिट याचिका (सी) सं. 7080 में लिए गए निर्णय, जिसका फैसला दिनांक 26.09.2008 को सुनाया गया, पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष याचिका के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी:--

क्रम सं.	नाम
1.	श्रीमती सीता सरना गर्ग (कर्मचारी कोड सं. 146)
2.	डॉ. पी.एस. नागेश्वर राव (कर्मचारी कोड सं. 139)

गिरीश सहाय, संयुक्त सचिव

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 नवम्बर 2012

सं. पीएफ/1934/एनआईसी/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति एतद्वारा श्रीमती नैना पंडित, वैज्ञानिक-एफ, (कर्मचारी कोड : 1934) का रा. सू.वि. केन्द्र, मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 08.11.2012 की पूर्वाह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त को स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से इयूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

जी. एन. कालिया, उप निदेशक (प्रशा.-I)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2012

सं. ए-32019/3/2012-एम.ए.--राष्ट्रपति, श्री गौतम चटर्जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 82) को 16.10.2012 (अपराह) से और अगले आदेश तक अपर सचिव के रैंक और वेतनमान के नौवहन महानिदेशालय, मुंबई में नौवहन महानिदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. शशिकुमार, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

सं. ए-32014/02/2012-ई-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.08.2012 के का.ज्ञा. सं. 06/11/2012-सी.एस.-I (एस) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायकों को 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड-2 + 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में दिनांक 05.08.2012 से दिनांक 31.12.2012 तक अथवा नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) के रूप में नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	सीएसएल 2003 में क्रमांक	एसक्यू/डीआर (रैंक)	नाम
1.	42	एसक्यू	श्री किशोर मल्होत्रा
2.	43	डीआर/86	श्री शुभेन्दु शेखर श्रीवास्तव

2. इस तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्तियों के इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने के लिए अथवा सीएसएस संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किया जाएगा।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2012

सं.22/2012 फाईल सं. 19/20/2011 स्थापना-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'ए') सेवा के श्री आर. के. बाठला, निदेशक, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, दिनांक 30.04.2012 (अपराह) से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

नरेंद्र सिंह, अवर सचिव

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 2nd November 2012

No. A-11013/17/2011-Admn.-III—Consequent upon the relinquishment of office by Minister of State (Dr. Ashwani Kumar) for Ministry of Planning w.e.f. the 28th October, 2012, the President is pleased to terminate the services of Shri Pardeep Bajaj as Assistant Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of MoS (Dr. Ashwani Kumar) and repatriated to Ministry of Road Transport & Highways with effect from the afternoon of 28th October, 2012.

2. He has been granted the winding up period of 30 days i.e. upto the afternoon of 26th November, 2012. Subsequently, after the expiry of the winding up period, he stands relieved from the Planning Commission to join his parent office i.e. the Ministry of Road Transport & Highways.

SUBHASH CHANDER, Under Secy.

No. A-11013/17/2011-Admn. III—Consequent upon the relinquishment of office by Minister of State (Dr. Ashwani Kumar) for Ministry of Planning w.e.f. the 28th October, 2012, the President is pleased to terminate the services of Shri Sudarshan Kumar as 1st PA on co-terminus basis in the personal staff of MoS (Dr. Ashwani Kumar) and repatriated to Ministry of Water Resources with effect from the afternoon of 28th October, 2012.

2. He has been granted the winding up period of 15 days i.e. upto the afternoon of 11th November, 2012. Subsequently, after the expiry of the winding up period, he stands relieved from the Planning Commission to join his parent office i.e. the Ministry of Water Resources, New Delhi.

SUBHASH CHANDER, Under Secy.

No. A-11013/17/2011-Admn. III—Consequent upon the relinquishment of office by Minister of State (Dr. Ashwani Kumar) for Ministry of Planning w.e.f. the 28th October, 2012, the President is pleased to terminate the services of Ms. Nirmal Kohli (an outsider) as Addl. Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of MoS (Dr. Ashwani Kumar) with effect from the afternoon of 28th October, 2012.

2. She has been granted the winding up period of 15 days i.e. upto the afternoon of 11th November, 2012.

SUBHASH CHANDER, Under Secy.

---

 MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 23rd October 2012

No. A-12025/06/2010-Admn.I(LA)—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is

pleased to appoint Shri Niraj Kumar, Advocate as Assitant Legal Adviser (Grade-IV of Legal Advisers service cadre of the Indian Legal Service), in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 5th October, 2012 until further orders.

2. The appointment of Shri Niraj Kumar to the post of Assistant Legal Adviser is provisional and will be subject to the final outcome of O.A. No. 1741/2012 and 1723/2012 pending in Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

G. D. SHARMA, Under Secy.

---

 MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd November 2012

No. A-38011/2/2012-ISC—On attaining the age of superannuation, Shri Melwin Martin, Deputy Secretary (CSS), Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs stands superannuated from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st October, 2012.

LAJPAT RAI GUPTA, Dy. Secy.

---

 MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH  
EASTERN REGION

New Delhi, the 2nd November 2012

No. 12/23/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Ratan Kumar Das as Under Secretary of CSS on ad hoc basis in Ministry of Development of North Eastern Region w.e.f. 30.10.2012 (F/N) for a period upto 31.05.2013 or till the post is filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier.

ASHOLI CHALAI, Director (Estt.)

---

 MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 2nd November 2012

No. 14012/18/2012-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Radhakrishnan B, member of the Indian Administrative, Service borne on the State Cadre of Maharashtra of 2008 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 01.09.2012.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

No. 14012/28/2012-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm

the following members of the Indian Administrative, Service borne on the West Bengal Cadre, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them:—

Sl. No.	Name	Batch	Date of confirmation
	S/Shri		
1.	Devi Prasad Karanam	2008	01.09.2010
2.	Mukta Arya	2008	01.09.2010
3.	Saurav Pahari	2008	09.02.2011

NAVNEET MISRA, Under Secy.

No. 14012/11/2012-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative, Service borne on the State of Haryana, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them:—

Sl. No.	Name	Batch	Date of confirmation
	S/Shri		
1.	Chander Shekhar	2008	01.09.2010
2.	Rajiv Rattan	2008	01.09.2010

NAVNEET MISRA, Under Secy.

#### MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 16th October 2012

No. 97: (F.No. A. 19011/22/2012-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri G.G. Shukla, IRS (IT: 76026) (Retd.), as Income Tax Ombudsman at Kochi in the HAG + Pay Scale of Rs. 75,500—80,000/- subject to the terms and conditions contained in the Income Tax Ombudsman Guidelines, 2010 for a period of 2 years with effect from 08.10.2012 (FN) or till he attains the age of 63 years or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 18th October 2012

No. 98: (F.No. A. 19013/15/2012-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri S.C. Ganger, (IRS:C&CE) as Under Secretary in the Central Board of Excise & Customs,

Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 04.09.2012 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 19th October 2012

No. 99: (F.No. A. 19012/18/2012-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Arti A. Srinivas, IRS (C&CE:92) as Director in the Department of Revenue for a period of five years w.e.f. 16.10.2012 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 25th October 2012

No. 100: (F.No. A. 19011/25/2012-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri S.M. Tata, IRS (C&CE:89) as Commissioner (Service Tax) Central Board of Excise and Customs in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 18.09.2012 (AN) and until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 102: (F.No. A. 19011/26/2012-Ad.I)—The President is pleased to appoint Smt. Lipika Majumdar Roy Choudhury, IRS (C&CE:77) as Member of the Central Board of Excise and Customs (CBEC) in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with the status of Special Secretary to the Government of India with effect from 22.10.2012 (FN) and until further orders or her superannuation, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 2nd November 2012

No. 105: (F.No. A. 38012/4/2012-Ad.I)—Shri A.K. Chaturvedi, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Director in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.10.2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 106: (F.No. A. 38012/5/2012-Ad.I)—Shri Lajpat Rai Aggarwal, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Director in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.10.2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.



New Delhi, the 26th October 2012

No. 24/2012 (F.No. A. 19013/50/2012-Ad.IA)—In pursuance to Department of Expenditure, CAS's O.M. No. A.12026/8/2010-CAS dated 16th October, 2012 and DoP&Ts O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17.07.2012 and on inclusion in the Select List (Seniority Quota) of the year 2010 the President is pleased to appoint Shri Balwan Singh, a regular Steno Grade 'C' of CSSS here to fore officiating as PS on adhoc basis in Ministry of Home Affairs as Steno Grade 'A&B' (merged) of CSSS on regular basis in the Department of Revenue with effect from 27.09.2012 (F/N).

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 6th November 2012

No. A-19011/328/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Anna Roy, Indian Economic Service (1992) as Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from forenoon of the 1st November, 2012 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

VIJAY MALHOTRA, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 2nd November 2012

No. A-12026/2/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Hem Raj Anand, a regular Section Officer of Central Secretariat Service to the Grade I (Under Secretary) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Rs. 6,600/- (Grade Pay) on purely adhoc basis with effect from the forenoon of the 31st October, 2012 for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier. The ad hoc promotion of Shri Hem Raj Anand shall be governed as per the conditions as mentioned in DoP&T's order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30.10.2012.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

#### MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 9th November 2012

No. 19/2012(.) F.No. A-46011/10/2009-Estt.(.)—On the basis of the recommendation of the Union Public Service Commission vide their letter F.No. 3/23/(4)/2012-ADT.2 dated 18th September, 2012, the President is pleased to appoint Shri S. Balaraju, Director (Enforcement), to the post of Joint Textile Commissioner, (Gr. A Gazetted), in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/-, in

the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai, with effect from 15th October, 2012 (AN), on promotion basis (.) He will be on probation for a period of two years from 15.10.2012 (A.N.) which is liable to be extended at the discretion of the competent authority (.).

SUMINDER KAUR, Under Secy.

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 7th November 2012

No. A-12011/11/2005-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 9/52/2012-EO(SM.I) dated 23rd October, 2012, the President is pleased to appoint Shri Afzal Amanullah, IAS (BH:79) as Additional Secretary in the pay scale of Rs. 67,000—79,000/- in the Department of Consumer Affairs with effect from the forenoon of the 6th November, 2012 and until further orders.

M.A. CHAUDHURY, Under Secy.

The 8th November 2012

No. A-12011/4/2012-Estt.—In pursuance of the DoP&T's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30th October, 2012, the President is pleased to appoint the following regular Section Officers of CSS Cadre as Under Secretary Grade-I of CSS in the Department of Consumer Affairs with effect from the dates mentioned against their names in the Pay Band Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- on purely ad hoc basis for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier:—

CSL No.	Name	Cadre from where relieved	Date of appointment
	S/Shri		
7252	Rajesh Budgijjar	Revenue	01.11.2012 (FN)
7995	T. Thian Khan Muan	Food & PD	02.11.2012 (FN)

2. The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority etc. in the Garde-I of CSS.

3. The appointment shall further be subejct to the final outcome in the O.A. No. 1083/2007 pending before the Central Administrative Tribunal (Principal Bench), New Delhi and also any other Order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

M.A. CHAUDHURY, Under Secy.

The 9th November 2012

No. A.12011/5/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajeshwar Kumar, Professor as Director in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 1st November, 2012 and until further orders.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

---

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 18th October 2012

No. A-12023/01/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Ranjeet Bairwa to the post of Scientist 'C' in Department of Scientific & Industrial Research in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of the 18th October, 2012, consequent upon his selection to the post through a Direct Recruitment process.

2. He will be on probation for a period of one year.

SRINIBAS PRADHAN, Under Secy.

---

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 30th October 2012

No. A-19011/15/2007-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30th October, 2012, the President is pleased to appoint Shri V. P. Gulati, CSS Section Officer as Under Secretary purely on ad hoc basis in this Department with immediate effect till his superannuation i.e. 31st October, 2012.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 31st October 2012

No. A-38011/10/2012-Estt.—Shri Virender Pal Gulati, Under Secretary, in the Department of Biotechnology retires

from Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2012.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

---

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 22nd October 2012

No. A-12018/1/2007-DFQC (Pt. II)—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the panel year 2012-13, duly approved by the Union Public Service Commission, the President is pleased to promote the following Assistant Drugs Controllers (India) to the post of Deputy Drugs Controllers (India) in the Central Drugs Standards Control Organization, Directorate General of Health Services in the revised pay structure PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 7,600/- (Group 'A'-Gazetted Non-Ministerial) plus usual admissible allowances in a regular temporary capacity with effect from the 18th October, 2012 and until further orders, in the order as stated :—

(i) Dr. Debabrata Roy

(ii) Shri G. Nageswara Rao

(iii) Shri S. Mukhopadhyay

2. The promotion of the above officers is subject to successful completion of the probation period of one year. On promotion, the officers are entitled to the option of fixation of their pay in the revised pay structure from the date of promotion or the date of next annual increment in accordance with the CCS (Revised Pay) Rules, 2008 and instructions issued by the Government in this regard. Such option must be exercised within one month from the date of promotion.

3. In the case of Dr. Debabrata Roy, the above promotion shall not affect his financial upgradation already granted under the Modified ACP scheme in any manner and he will continue to draw the same pay and allowances as hithertofore.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

---

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 4th October 2012

No. 21-1/2010-CA-III—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group-B, Gazetted, Non-Ministerial), the following Statistical Investigators and Senior Technical Assistants are promoted to the post of Assistant Director in the cadre of the Crops Development Directorates in the scale of Pay of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of

Rs. 4,600/- from the date mentioned against their name in a temporary capacity with effect from 19.10.2011 (Forenoon) until further orders :—

Sl. No.	Name	Promoted to the post	Date of Joining	Place of Posting
1.	Dr. Mahesh Kumar, S.T.A.	Asstt. Director	20.10.2011	Dte. of Wheat Dev., Ghaziabad
2.	Dr. Arun Kumar Shivhare, S.I.	Asstt. Director	19.10.2011	Dte. of Pulses Dev., Bhopal
3.	Dr. Sumit Mishra, S.T.A.	Asstt. Director	19.10.2011	Dte. of Sugarcane Dev., Lucknow
4.	Dr. Subhash Chandra, S.T.A.	Asstt. Director	21.12.2011	Dte. of Millet Dev., Jaipur
5.	Smt. Sandhya Rani Gorthi, S.I.	Asstt. Director	16.08.2012	Dte. of Oilseed Dev., Hyderabad

M. K. SAHAY, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,  
DAIRYING & FISHERIES

New Delhi, the 6th November 2012

No. A-19011/30/2012-Admn. I—In terms of Department of Personnel and Training's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint Shri T. Toppo as Under Secretary in the Scale of Pay of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 01st November, 2012 in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

D. BANERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 4th October 2012

No. 5-3/2011-Admn.—In compliance of DoPT's OM No. 06/11/2012-CS-I(S) dated 23rd August, 2012, the President is pleased to appoint the following regular Assistants of CSS working in this Ministry as Section Officers of CSS purely on temporary and ad-hoc basis with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	CSL No.	Date of Joining
1.	Smt. Girija Surendran	295	01.10.2012 (FN)
2.	Sh. Ram Prasad Sharma	463	01.10.2012 (FN)

NAVEEN YADAV, Under Secy.

New Delhi, the 26th October 2012

No. 4-21/1987-Admn.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Debabrata Majumder, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development

shall stand retired from Government Service with effect from 31.10.2012 (Afternoon).

JAI KISHORE, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 17th October 2012

No. A-19011/9/2012-Estt.—Consequent on his appointment as Joint Secretary, Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training (Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet's) Order No. 4/2/2012-EO (SM-I) dated 21st September, 2012, Shri Rakesh Ranjan, IAS (MT : 92) has assumed the charge of the post of Joint Secretary, Ministry of Culture in the forenoon of 15th October, 2012.

B. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS &  
INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 1st November 2012

No. 2(10)/2012-Pers.I—The President is pleased to appoint Dr. Dinesh Chandra Chamola as Joint Director (Hindi) on deputation (Short-term Contract) basis in the Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- p.m. initially for a period of one year w.e.f. forenoon of 01.11.2012 or until further orders, whichever is earlier.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

No. 4(578)/94-P.I—The President is pleased to accept the technical resignation of Smt. Harshprabha Aggarwal,

(E. Code : 225) from the post of Scientist 'F' in this Department in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,900/- with effect from 07.09.2012.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

The 5th November 2012

No. 3(5)/2011-Pers.I—The President is pleased to appoint on promotion the following Scientist 'F' of Department of Electronics and Information Technology as Scientist 'G' in the Pay Band-4, Rs. 37,000—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- p.m. w.e.f. 02.11.2012 (FN) subject to the final outcome of Special Leave Petition filed by National Informatics Centre (NIC) in the Supreme Court of India on a decision of the High Court of Orissa in W.P. (C) No. 7080 of 2005, Judgement delivered on 26.09.2008 :—

Sl. No. Name

1. Sh. Sita Saran Garg (E. Code : 146)
2. Dr. P. S. Nageshwara Rao (E. Code : 139)

GIRISH SAHAI, Jt. Director

#### NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 8th November 2012

No. PF/1934/NIC/2012-Adm-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Smt. Naina Pandita, Emp Code : 1934 from the post of Scientist-F, NIC-Hqrs., New Delhi from the forenoon of 08.11.2012 and she stands relieved of her duties from the same day.

G. N. KALIA, Dy. Director (Adm-I)

#### MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 5th November 2012

No. A-32019/3/2012-MA—The President is pleased to appoint Shri Gautam Chatterjee, IAS (MH-82), as Director

General of Shipping in the Directorate General of Shipping, Mumbai, in the rank and Pay of Additional Secretary w.e.f. 16.10.2012 (AN) and until further orders.

P. SASIKUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 10th October 2012

No. A-32014/02/2012-E.I—In pursuance of DoP&T OM No. 06/11/2012-CS-I(S) dated 23.08.2012, the President is pleased to appoint the following regular Assistants (CSS) as Section Officers (CSS) in the PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Road Transport & Highways on ad-hoc basis with effect from 05.10.2012 upto 31.12.2012 or till regular candidates become available whichever is earlier :—

Sl. No.	Sl. No. in CSL 2003	SQ/DR (Rank)	Name
1.	42	SQ	Sh. Kishor Malhotra
2.	43	DR/86	Sh. Shubhendu Shekhar Srivastava

2. The ad-hoc appointments shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the grade of Section Officer grade of CCS.

H. R. MEENA, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 8th November 2012

No. 22/2012 File No. 19/20/2011-Estt.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri R. K. Bathla, Junior Administrative Grade Officer of the Central Water Engineering (Group 'A') Service retired from Government Service w.e.f. 30.4.2012 (A.N).

NARENDRA SINGH, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012